



सिटी निवासियों को इस वसंत सुरक्षित रहने के सुझाव याद दिलाती है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 मार्च, 2021) – जैसे कि गर्मी के काफी बढ़ने का अनुमान है, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इस वसंत सुरक्षित रहने के सुझाव याद दिलाती है। सीजनों में बदलाव, अलग खतरे लेकर आता है, जिसके बारे में हर किसी को पता होना आवश्यक है।

इस सर्दी देखी गई, बर्फीले तूफान का मलबा, स्नो और आइस का इकट्ठा होना और अब, होने वाली वसंत की बारिश जैसी कई प्रकार की स्थितियों के कारण, सिटी का एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Emergency Management Office) निवासियों को सूचित करता है कि, बाढ़ का जोखिम औसत से अधिक है। नीचे बाढ़ से सुरक्षा के मुख्य सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है:

- पुलिस, फायर या एम्बुलेंस की जरूरत वाली किसी भी एमरजेंसी के लिए तुरंत 9-1-1 पर फोन करें।
- म्युनिसिपल सड़कों पर लोकल बाढ़, रुके हुए स्टॉर्म सीवर ग्रेट्स या बेसमेंट की बाढ़ के लिए, [311](#) पर संपर्क करें।
- नदियों और स्ट्रीम्स में पानी के बढ़े हुए स्तरों की रिपोर्ट करने के लिए, [क्रेडिट वैली कन्जर्वेशन अथॉरिटी \(the Credit Valley Conservation Authority\)](#) को सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:30 बजे और शाम 4:30 बजे के बीच संपर्क करें और फ्लड ड्यूटी अफसर (Flood Duty Officer) से बात करवाने के लिए कहें।
- अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करें। बाढ़ आने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपने पानी निकलने के लिए रास्ता छोड़ा है। यदि ऐसा करना सुरक्षित हो, तो अपनी प्रॉपर्टी पर निकटतम कैच बेसिन या स्ट्रीट को जाने वाला रास्ता साफ करें, ताकि पानी अपने आप बह सके। अपनी प्रॉपर्टी से अतिरिक्त स्नो हटाएं। सुनिश्चित करें कि कैच बेसिन और डाउनस्पाउटल रुके हुए नहीं हैं।
- यदि बाढ़ आती है और आपको पानी में से निकलना पड़े तो बिजली बंद करने की कोशिश न करें। बिजली बंद करने के लिए एलेक्ट्रा (Alectra) को संपर्क करें। जिस कमरे में पानी, बिजली के आउटलेट्स, उपकरणों या तारों के संपर्क में आ सकता हो, कभी भी उस कमरे के अंदर न जाएं।
- बाढ़ का पानी निकलने के बाद, फफूंदी और पानी के रिसाव संबंधी, लॉग-टर्म के जोखिमों से सुरक्षा के लिए, अपने घर/प्रॉपर्टी की अच्छी तरह से सफाई जरूर करें।
- जिन सड़कों पर बाढ़ आई हो, वहां न चलें या वाहन न चलाएं। पानी एकत्र होने से स्ट्रीट्स और पगडंडियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

निवासियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि नदियों, स्ट्रीम्स, तालाबों (तूफान के पानी से भरे तालाबों सहित), रेजरवायर्स, गीली ज़मीनों और दलदल वाली ज़मीनों पर स्केटिंग न करें, क्योंकि यह घटते-बढ़ते तापमान के कारण, स्नो और आइस के पिघलने और निगरानी की कमी के कारण असुरक्षित है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, लोकल नदियों और तालाबों के साइन बोर्ड लगाए हैं, ताकि निवासियों को उन पर स्केटिंग करने से रोका जा सके। स्केटिंग करने के लिए नियत और निशान लगे क्षेत्रों को छोड़कर, किसी झील या वाटरकोर्स पर स्केटिंग करना, [सिटी के पार्क लैंड्स बाइ-लॉ \(City's Park Lands By-Law\)](#) के अंतर्गत उल्लंघन है। इस नियम का पालन न करने वालों पर, अधिकतम \$5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।



BRAMPTON

Service and Information Update

इस बारे में और सुझावों के लिए कि इस वसंत सुरक्षित कैसे रहा जाए और बाढ़ से सुरक्षा संबंधी संपर्क और संसाधनों की पूरी सूची के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

-30-

मीडिया संपर्क

गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca